

आर्मी का फर्जी लेबल लगाकर शराब की तस्करी

क्राइम ब्रांच ने आर्मी कैंटीन के जाली लेबल और बार कोड लगाकर शराब की तस्करी करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। आरोपियों की पहचान रवींद्र सिंह उर्फ ...

Navbharat Times | Updated: 26 Sep 2018, 08:00:00 AM IST

[Hindi News](#)

[Metro](#)

[Delhi](#)

[Other News](#)

Liquor Smuggling By Putting Fake Label Of Army

प्रस, नई दिल्ली : क्राइम ब्रांच ने आर्मी कैंटीन के जाली लेबल और बार कोड लगाकर शराब की तस्करी करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। आरोपियों की पहचान रवींद्र सिंह उर्फ भूल्लर, धर्मपाल उर्फ धरमू और पवन कुमार गिलहोत्रा उर्फ पम्मी के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपियों के पास से शराब की 66 पेटियां बरामद की। इन पेटियों में ब्लैक डॉग, 100 पाइपर, रॉयल स्टैग और ऑफिसर्स चॉइस शराब की बोतलें थीं। बोतलों पर आर्मी कैंटीन के लेबल लगे हुए थे।

डीसीपी राजेश देव ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि बिंदापुर इलाके में शराब तस्कर रवींद्र सिंह एक्टिव हैं। पुलिस को यह भी पता चला कि वह नॉर्मल शराब की बोतलों पर आर्मी कैंटीन का लेबल और बारकोड लगाकर मार्केट में बेचता है। महंगी और असली शराब पीने के शौकीन ऐसी शराब को आंख बंद करके खरीद लेते हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने शराब तस्करों को अरेस्ट करने के लिए एसीपी जसबीर सिंह की देखरेख में इंस्पेक्टर रितेश कुमार सहित अन्य पुलिसवालों की टीम बनाई। पुलिस टीम ने बिंदापुर इलाके में रविवार बाजार चौक पर ट्रैप लगाकर वहां से कार में सवार होकर आए तीनों शराब तस्करों को अरेस्ट कर लिया। कार के अंदर से पुलिस को शराब की 9 पेटियां बरामद हुईं। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर उनके गोदाम पर छापा मारकर वहां से बाकी भी भारी मात्रा में शराब के अलावा आर्मी कैंटीन के फर्जी लेबल बरामद किए।

Source: <https://navbharattimes.indiatimes.com/metro/delhi/other-news/liquor-smuggling-by-putting-fake-label-of-army/articleshow/65954542.cms>